



सभी लोगों के लिए मतदान समाधान

सुरक्षा

Los Angeles काउंटी मतदाताओं को सुरक्षित, सटीक तथा पारदर्शी मतदान अनुभव प्रदान करना।

Los Angeles काउंटी में नए मतदान अनुभव को ऐसे डिजाइन किया गया है जो सभी मतदाताओं के लिए सुरक्षित तथा पारदर्शी हो। ऐसे अनेक प्रकार के प्रणाली सम्बन्धी तत्व हैं जो चुनावों की सत्यनिष्ठा तथा मतदान प्रक्रिया की रक्षा करते हैं।

■ सुरक्षित डिजाइन

मतपत्र चिन्हांकन उपकरण (BMD) मतदाता सत्यापित कागजी मतपत्र प्रिंट करता है। मतदाता के चयनों को मानव-पठनीय पाठ में प्रिंट किया जाता है और ये आधिकारिक मतदान अभिलेख हैं। डिजाइन के अनुसार, BMD किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता है। यह मतदाता के किसी भी डेटा संग्रहीत नहीं करता है या मतों की गणना नहीं करता है।



■ निजी और गोपनीय

ई-पोलबुकस पर मतदाता जानकारी BMD या मतदान गणना प्रणाली से जुड़ी नहीं होती है। मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित करने के लिए वे एक-दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। प्रिंट किए गए मतपत्रों में मतदाता की कोई भी जानकारी नहीं होती है।



■ बहुआयामी सुलभता नियन्त्रण

Los Angeles काउंटी रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क का कार्यालय मतदान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाये रखता है। अनधिकृत सुलभता की संभावना कम करने के लिए चुनाव कर्मचारी वर्ग के पास उपयोगकर्ता-विशिष्ट परिचय-पत्र होते हैं। एकीकृत मतपत्र पेटी (IBB) तथा संवेदनशील चुनाव उपकरण पर तालों तथा छेड़छाड़ को स्पष्ट करने वाली सीलों का उपयोग सभी चुनावों की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा करते हैं और अभिरक्षा की सत्यापन योग्य शृंखला सुनिश्चित करते हैं।



■ पारदर्शिता तथा सुगम्यता

नया मतदान अनुभव प्रमाणीकरण से पूर्व चुनाव पश्चात् की कैनवास अवधि के दौरान डाले गए मतपत्रों की 1% दस्ती लेखा-परीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया के लिए पारदर्शिता तथा सार्वजनिक सुलभता सुनिश्चित करते हुए प्रणालीगत कमजोरियों के खिलाफ आवश्यक प्रतिरक्षा सम्मिलित करता है।

